

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन में पूरी गर्मी कई प्रकार के फेस्टिवल्स और कार्यक्रमों का अनुभव लें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में पूरे परिवार हेतु आनंद लेने के लिए गर्मी में कई रोमांचक फेस्टिवल्स और कार्यक्रम हो रहे हैं। 20 मई से 11 सितम्बर तक, निवासियों और आगंतुकों (विजिटर्स) को सिटी में गर्मी का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है; 114-दिनों के सीजन में लगभग 100 दिनों तक प्रोग्रामिंग पेश की जा रही है, जिसमें शामिल हैं:

- फेस्टिवल्स और कार्यक्रम, जैसे प्राइड 2022 (Pride 2022), नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे (National Indigenous Peoples' Day) और कैनैडा डे (Canada Day);
- कम्युनिटी के द्वारा संचालित कार्यक्रम, जैसे वर्ल्ड ऑफ जैज़ (World of Jazz) और वाइब्रेंट ब्रैम्पटन (Vibrant Brampton);
- साप्ताहिक प्रोग्रामिंग, जैसे प्रिय ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्केट (Brampton Farmers' Market) और मूवी नाइट्स (Movie Nights); तथा
- और भी बहुत कुछ!

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, पूरे शहर में व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए निवासियों और आगंतुकों का एक बार फिर से स्वागत करने के लिए उत्साहित है, जो ब्रैम्पटन की विविधता का जश्न मनाते हैं, शहरी गौरव के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पब्लिक जगहों को सक्रिय करते हैं और कला तथा सांस्कृतिक मंच को उजागर करते हैं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का कार्यक्रम कैलेंडर, गर्मी के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए वन-स्टॉप-शॉप के तौर पर काम करेगा। कार्यक्रम आयोजकों को पूरे शहर में अपने कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद के लिए, विवरणों को कैलेंडर में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कैलेंडर में कोई कार्यक्रम शामिल करने और यह देखने के लिए कि क्या शेड्यूल किया गया है, [brampton.ca/events](http://brampton.ca/events) पर जाएं। कार्यक्रम, पूरी गर्मी के दौरान लगातार शामिल किए जाएंगे।

### स्पोर्ट्स लोकल (Support Local)

ब्रैम्पटन में किसी कार्यक्रम के लिए मौजूद होने के समय, क्यों न उस दिन का लाभ उठाया जाए? ब्रैम्पटन फूड गाइड (Brampton Food Guide) के पृष्ठों पर नज़र डालें और किसी लोकल रेस्टोरेंट को स्पोर्ट करें। ब्रैम्पटन का विविध फूड मंच, पूरी दुनिया के बेजोड़ स्वाद पेश करता है। आज ही गाइड के पृष्ठों पर नज़र डालें और अपनी नई पसंदीदा जगह ढूँढ़ें। अधिक जानकारी, [brampton.ca/tourism](http://brampton.ca/tourism) पर प्राप्त करें।

### डाउनटाउन रिवाइटलाइज़ेशन (Downtown Revitalization)

डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में परिवर्तन हो रहा है, जो क्षेत्र में वाटरमेन और सैनिटरी सीवरों को बदलने के लिए

रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई सड़कें बंद रहेंगी। यदि आप किसी फेस्टिवल के लिए डाउनटाउन जा रहे हैं, तो पहले योजना बनाएं।

म्युनिसिपल पार्किंग के बारे में अपडेट्स, [brampton.ca](http://brampton.ca) पर प्राप्त की जा सकती हैं या ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के द्वारा वहां पहुंचें। [ट्रिपलिनक्स \(Triplinx\)](#) के साथ पहले ही अपनी ट्रिप की योजना बनाएं।

### हवाले

“गर्मी आ गई है और मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि बाहर निकलें और ब्रैम्पटन में होने वाले शानदार फेस्टिवल्स और कार्यक्रमों में से एक का मज़ा लें। हमारे खास कैनेडा डे कार्यक्रम से लेकर साप्ताहिक ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्केट तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम इस गर्मी हमारे निवासियों और आगंतुकों के लिए बाहर निकलने और ब्रैम्पटन का सही अनुभव लेने के लिए नियोजित, असीम प्रोग्रामिंग को लेकर उत्साहित हैं। मैं हमारे कम्युनिटी साझेदारों को सलाह देता हूँ कि यह साझा करने के लिए कार्यक्रमों को कैलेंडर में शामिल करें कि वे, इस सीजन निवासियों और आगंतुकों के लिए ब्रैम्पटन कम्युनिटी में क्या पेश कर रहे हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसके कम्युनिटी साझेदारों के पास, पूरी सिटी में हर किसी के आनंद लेने के लिए नियोजित, गर्मी की कई तरह की रोमांचक प्रोग्रामिंग है। इस गर्मी, ब्रैम्पटन, जुड़ने, शामिल होने और आनंद लेने की जगह है!”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)